



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 728]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2009/पौष 2, 1931

No. 728]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2009/PAUSA 2, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2009

सं. 144/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 922(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उप-शीर्ष 8540 11 के अंतर्गत आने वाले कैथोड रे कलर टेलीविजन पिकचर ट्यूब (जिनको इसके पश्चात् सम्बद्ध माल कहा गया है) और जो कि मलेशिया, थाईलैंड, चीन जन. गण. तथा कोरिया आरपी. (जिनको इसके पश्चात् विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यात किये गए, के विषय में अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 14/8/2007-डीजीएडी, तारीख 17 फरवरी, 2009 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 17 फरवरी, 2009 में प्रकाशित की गई है, से इस निर्णय पर पहुंचे थे कि :—

- (क) सम्बद्ध देश के मूल के आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं और इनसे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- (ख) सम्बद्ध देश से सम्बद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्रियों में वृद्धि नहीं कर पाया है;
- (ग) भारी कीमत कटौती और पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि से घरेलू उद्योग का निष्पादन लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय की दृष्टि से प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ है;

(घ) सम्बद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि (समग्र रूप से तथा मांग में हिस्से के संबंध में दोनों रूप से) के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है;

और अभिहित प्राधिकारी ने सम्बद्ध देश में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यात किये, सम्बद्ध माल के सभी आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्व पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 15 मई, 2009 में प्रकाशित भारत सरकार, के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अधिसूचना सं. 50/2009-सीमाशुल्क, तारीख 15 मई, 2009 [सा.का.नि. 337(अ), तारीख 15 मई, 2009] द्वारा विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए कैथोड रे कलर टेलीविजन पिकचर ट्यूब पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया गया था;

और जबकि मैसर्स मेरीडियन सोलर एंड डिस्प्ले कम्पनी लिमिटेड उत्पादक/निर्यातक कोरिया आरपी ने सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 22 के तहत उसके द्वारा किए गए निर्यातों की समीक्षा का निवेदन किया है तथा अभिहित प्राधिकारी ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 13 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/10/2009-डीजीएडी, तारीख 13 नवम्बर, 2009 द्वारा उक्त मैसर्स मेरीडियन सोलर एंड डिस्प्ले कम्पनी लिमिटेड उत्पादक/निर्यातक कोरिया आरपी द्वारा किए गए, कैथोड रे कलर टेलीविजन पिकचर ट्यूब सभी निर्यातों का, समीक्षा के पूरे होने तक, अनन्तिम मूल्यांकन की सिफारिश की है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण तथा

क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 22 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अभिहित प्राधिकारी के उक्त समीक्षा के पूरे होने तक, यह आदेश देती है कि मैसर्स मेरीडियन सोलर एंड डिस्प्ले कम्पनी लिमिटेड उत्पादक/निर्यातक कोरिया आरपी द्वारा उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रथम अनुसूची के उप-शीर्ष 8540 11 के अंतर्गत आने वाली कैथोड रे कलर टेलीविजन पिकचर ट्यूब के सभी निर्यातों का, अनन्तिम मूल्यांकन किया जाएगा।

2. अनन्तिम मूल्यांकन के लिए ऐसी गारंटी आवश्यक होगी जो यथास्थिति सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा, समीक्षा के पूरे होने तक अभिहित प्राधिकारी द्वारा पूर्व प्रभावी रूप से प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की स्थिति में, अपर्याप्तता की अदायगी के लिए समुचित समझी गई हो।

3. यदि अभिहित प्राधिकारी के, समीक्षा के पूरे होने पर प्रतिपाटन शुल्क की सिफरिश करते हैं आयातक, ऐसी प्रतिपाटित शुल्क की रकम, मैसर्स मेरीडियन सोलर एंड डिस्प्ले कम्पनी लिमिटेड उत्पादक/निर्यातक कोरिया आरपी द्वारा भारत में किए गए सभी कैथोड रे कलर टेलीविजन पिकचर ट्यूब के आयातों पर जो अभिहित प्राधिकारी द्वारा सिफरिश की गई हो, जांच की अवधि के प्रारम्भ की तारीख से अदा करेगा।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “टेलीविजन पिकचर ट्यूब्स से अभिप्राय है पूर्ण या अपूर्ण थर्मियोनिक, कोल्ड कैथोड या निर्वात अथवा वाष्प अथवा गैस भरे बॉल्बों एवं ट्यूबों जैसे फोटो कैथोड बॉल्ब्स एवं ट्यूब्स, मर्करी आर्क रेक्टिफाइंग बॉल्ब्स एवं ट्यूब्स जिन्हें कैथोड रे ट्यूब्स, टेलीविजन कैमरा ट्यूब्स या कैथोड रे कलर टेलीविजन पिकचर ट्यूब्स या कलर टेलीविजन पिकचर ट्यूब्स या कलर पिकचर ट्यूब्स परंतु इसमें वीडियो एवं कम्प्यूटर मॉनीटर कैथोड रे ट्यूब्स दायरे से बाहर हैं”।

[फा.सं. 354/252/2009-टीआरयू]

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2009

No. 144/2009-CUSTOMS

G.S.R. 922(E).—Whereas, in the matter of import of Cathode Ray Colour Television Picture Tubes (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 8540 11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) originating in, or exported from Malaysia, Thailand, China PR and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority, in its final findings vide notification No. 14/8/2007-DGAD, dated the 17th February, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, dated the 17th February, 2009, had come to the conclusion that—

- (a) imports originating in the subject country are taking place at dumped prices and the same have caused material injury to the domestic industry;
- (b) decline in market share of domestic industry as a consequence of increase in market share of subject imports from the subject country prevented the domestic industry from increasing their sales commensurate to growth in demand;
- (c) significant price-undercutting and substantial increase in the volume of dumped imports adversely affected the performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow, and return on investment;
- (d) significant increase in volume of dumped imports from the subject country (both in absolute terms as well as in relation to the share in demand) has resulted in significant decline in market share of the domestic industry;

and had recommended imposition of anti-dumping duty, on all imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries;

And whereas on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on cathode ray colour television picture tubes originating in, or exported from the subject countries and imported into India vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2009-Customs, dated the 15th May, 2009, published in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, G.S.R. 337(E) dated the 15th May, 2009;

And whereas M/s Meridian Solar & Display Company Ltd. producer/exporter from Korea RP have requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 in respect of exports made by them, and the designated authority, vide new shipper review notification No. 15/10/2009-DGAD dated the 13th November, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13th November, 2009 has recommended provisional assessment of all exports of cathode ray colour television picture tubes made by the said M/s Meridian Solar & Display Company Ltd. producer/exporter from Korea RP till the completion of the said review;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that pending the

outcome of the said review by the designated authority, export of compact cathode ray colour television picture tubes, falling under sub-heading 8540 11 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, by M/s Meridian Solar & Display Company Ltd. producer/ exporter from Korea RP, when imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed.

2. The provisional assessment may be subject to such security or guarantee as the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, deems fit for payment of the deficiency, if any, in case a definitive anti-dumping duty is imposed retrospectively, on completion of investigation by the designated authority.

3. In case of recommendation of anti-dumping duty after completion of the said review by the designated authority, the importer shall be liable to pay the amount of

such anti-dumping duty recommended on review and imposed on all imports of cathode ray colour television picture tubes into India, exported by M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd. producer/exporter from Korea RP, when imported into India, from the date of initiation of the said review.

Explanation :—For the purposes of this notification, "Television picture tubes means complete or incomplete thermionic, cold cathode or photo cathode valves and tubes such as vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, also called cathode ray tubes, television camera tubes or cathode ray colour television picture tubes, or colour television picture tubes, or colour picture tubes etc. but does not include video and computer monitor cathode ray tubes".

[F. No. 354/252/2009-TRU]

PRASHANT KUMAR, Under Secy.